

CIN: L15142RJ1991PLC006353

SARDA PROTEINS LTD.

Date: 11.02.2022

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400 001

(BY BSE LISTING CENTRE)

Sub.: Newspaper Advertisement of Un-audited Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2021 of the Company.

Ref.: Sardaproteins Ltd, Scrip Code: 519242, Security ID: SRDAPRT.

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2021 published by the Company in Indian Express (English) and Nafa Nuksan (Hindi) Newspapers on 11th February, 2021.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

FOR SARDAPROTEINS LTD

For SARDAPROTEINS LTD.


Company Secretary

AMIT KUMAR MODI
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER
M. NO.: A29371

Encl.: a/a

'Should not happen to anyone': Bengaluru girl hit by falling tree branch dies after 701 days in coma

KIRAN PARASHAR
BENGALURU, FEBRUARY 10

AROUND TWO years ago, Rachel Prisha was hit on the head by a falling tree branch while on her way to school. After spending 701 days in a coma — a period punctuated by repeated episodes of sepsis and epileptic seizures — the nine-year-old died on Thursday in a Bengaluru hospital.



Rachel Prisha was 9, Express

For her father, the incidents of March 11, 2020, may well have happened yesterday. Raju Y was with his daughter on his scooter when the dry branch, which was supposed to have been cleared by the Bengaluru civic body, dropped on her at the TC Palya Main Road.

He rushed his severely injured daughter to a hospital, which then referred her to Manipal Hospital. Rachel would never leave it — she died after contracting a severe chest infection and sepsis, according to the hospital.

"Our fight to save her went in vain. Once in a while, she would get seizures and her body would move. We knew she could not listen or respond, but we spoke to her everyday just to console ourselves," Raju told The Indian Express.

A day after the incident, the police in Bengaluru filed an FIR against Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) officials from the KR Puram jurisdiction, invoking IPC Sections 336 and 338 that deal with negligence endangering human life.

With the civic body taking up the cost of treatment, the parents requested the police to not take any action against it.

"My wife Pavithra and I have seen what our daughter went through. She never even knew about the pandemic. My only request to the authorities is to ensure that it doesn't happen to any other person in the future," said Raju.

In the days that followed the incident, the family found its life upended. Raju shut down his mobile phone shop so that both parents could care for Rachel full time. The child needed to be monitored round the clock as she got frequent epileptic seizures.

"Every day after the incident, Pavithra and I were with my daughter in shifts. I stayed during the nights and my wife during the day. The doctors here did their best. She underwent so many surgeries that even we don't remember the count."

Initially, he said, they would spend the nights in the hospital lobby. "On BBMP's request, the hospital allowed us to stay in a ward. BBMP took care of her treatment expenses," said Raju.

The family has incurred a debt of Rs 12 lakh debt after the incident. "I had just set up a mobile shop and it was doing well. As we had to stay here, I closed it. Paying rent for house and shop and other expenses has pushed us to take a loan of Rs 12 lakh," said the father.

A statement from Manipal hospital said Rachel was admitted in a critical condition on March 11, 2020. "She was stabilized after multiple neurosurgical procedures and prolonged medical management in the ICU. Later she was shifted to a high-dependency unit where she underwent intensive neurorehabilitation treatment."

The statement added: "Even with the best of care, her recovery was very poor and she continued to be in a persistent vegetative state. She was completely dependent on caregivers for all her activities of daily living. Her stay

Denied elevation, judge who gave 'no skin-to-skin contact' order resigns

New Delhi, Mumbai: Two days before the end of her tenure, Justice Pushpa V Ganediwala, additional judge of the Bombay High Court who was refused elevation as a permanent judge, resigned Thursday.

In December last year, the Supreme Court Collegium had decided not to recommend the name of Justice Ganediwala as permanent judge of the Bombay HC after two of her verdicts were closely scrutinised for controversial interpretation of sexual assault under the POCSO Act, 2012.

The Collegium's rare decision to demote the judge meant that once her tenure as additional judge ended on February 12, Justice Ganediwala would have been sent back to the district judiciary.

ENS

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (TENDERING) M-3
DELHI JAL BOARD : GOVT. OF NCT OF DELHI
H-BLOCK : SECTOR-15 : ROHINI : DELHI-89
E-mail Id: eetenderingm3.djb@gmail.com

PRESS NIT No. 53 (2021-22)
Press Notice Tender

S. No.	Name of Work	Amount put to Tender/ Estimated cost	EMD/ Tender Fee	Date of release of tender/ procurement solution/ I.D. No.	Last date/time of receipt of bid through e-procurement solution
1.	Providing laying 600 mm dia DI water line from Sector-29 UGR to Shahbad Dairy in AC-07 Bawana under EE(NW)-II (Presently under ACE(M)-3 (Re-invite)	Rs. 2,39,56,978/-	Rs. 4,79,200/- Rs. 1500/-	10.02.2022 2022_DJB_216511_1	21.02.2022 Upto 3.00 PM

Further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 1114 (2021-22)

Sd/-
Executive Engineer(T) M-3
"STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD.
Corporate Office: Sadhana House, 2nd Floor, 570, P.B. Marg, Worli, Mumbai-400018
Tel: 022-66523500, Fax: +91 22 24972741, CIN: U65922MH2007PLC169791
Regional Office: MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD., 1st Floor, Deepak Plaza, 7A/2, Sanjay Nagar-A, Near Joshi Marg Opp Maa Hospital, Main Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan-302012

NOTICE UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (here in after called act)

Notice for the period of 60 days was given under section 13(2) of above act to the following borrowers to deposit loan amount and future interest due to NPA of the account by the MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD. authorized officer of the bank. According to the notice if the loan amount not deposited within 60 days, the said amount to be recovered under provision of section 13(4) of the said act. The MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD. has not received the acknowledgement of said notice/returned undelivered which was sent to you under said act. Therefore this is to inform through notice that deposit the loan amount with future interest and expenses otherwise, after 60 days from the date of publication, hence further steps will be taken by the MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD under provision of section 13 and 14 of the said act.

S. No.	Name of Borrowers / N. Co-Borrowers/ Guarantors/	13(2) Notice Date & Demand Amount	Description of the Mortgaged property
1.	Borrower: SIKHAR KUMAR Co-Borrower: KALISHAYA DEVI LAN: XSEMAIM00229342	17-Nov-2021 Rs. 6,88,632/- (RUPEES SIX LAC EIGHTY EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY TWO ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Plot No. 4 part of Kharsa No. 1723, Village - Somalpur, Teh & Dist. Ajmer, Rajasthan (232.00 Sq Yds) Bounded: North: 12.0 Ft Wide Road, South: Open Plot, East: Plot No. 3, West: Private Plot.
2.	Borrower: SUMITRA DEVI BAIKAWA Co-Borrower: VED PRAKASH BAIKAWA LAN: XSEMPJ00384525	17-Nov-2021 Rs. 27,95,401/- (RUPEES TWENTY SEVEN LAC NINETY FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED ONE ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Plot No. 46, A part of Vihar, Paladi Meena, Agra Road, Jaipur, Rajasthan (133.33 Sq Yds) Bounded: North: Plot No. 31, East: Plot No. 47, West: Plot No. 46
3.	Borrower: RAMJAN Co-Borrower: MANJU LAN: XSEMAIM00719602	17-Nov-2021 Rs. 70,295/- (RUPEES FOUR LAC SEVENTY THOUSAND TWO HUNDRED NINETY FIVE ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Patta No. 4, Village- Mijan Sarwar, Gram Panchayat: Bhagwanpura, P.S.- Sarwar, Ajmer, Rajasthan (105.08 Sq Yds) Bounded: North: Common Road, South: House Of Gopal, South: House Of Mumtaz, East: House Of Kanha Baiwra, West: ...
4.	Borrower: SHYQI RAM BAIKAWA Co-Borrower: BANARAJ KANOLI, JADA DEVI LAN: XSEMAIM00789284	17-Nov-2021 Rs. 11,33,720/- (RUPEES ELEVEN LAC THIRTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Patta No. 09, Issued By Gram Panchayat Tiloniyar, Panchayat Samiti: Kishangarh, Dist. Ajmer, Rajasthan (105.08 Sq Yds) Bounded: North: Common Road, South: House Of Suresh/Chooop, East: Common Road, West: Bada Of Mohan/Narayan
5.	Borrower: BABULI MEENA Co-Borrower: BABULI BAI Guarantor: LOKESH KUMAR LAN: XSEMDK00778704	17-Nov-2021 Rs. 11,33,720/- (RUPEES ELEVEN LAC THIRTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Patta No. 340, Ward No. 04, Kaperth, Tehsil Keshavnagar, Dist- Bundi, Rajasthan (1500 Sq Ft) Bounded: North: Plot No. 5, South: Plot No. 3, East: Road 20 Ft, West: Part Of Plot No. 9
6.	Borrower: OUDAR RAM GURJAR Co-Borrower: KHEM RAJ LAN: XSEMAIM00532466	17-Nov-2021 Rs. 8,55,783/- (RUPEES SIX LAC FIFTY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY EIGHT ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Patta No. 05, Issued By Gram Panchayat Mayala, Panchayat Samiti: Masuda, Dist. Ajmer, Rajasthan (93.50 Sq Ft) Bounded: North: Common Road, South: Common Road, East: Common Road, West: Sukdev/Biram Ka Nohra
7.	Borrower: MANABHAR Co-Borrower: SUBHASH REGAR LAXMI DEVI LAN: XSEMAIM00530015	17-Nov-2021 Rs. 11,33,720/- (RUPEES ELEVEN LAC THIRTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Plot Bearing Sankalp Sankhya 07, Gram Panchayat: Mandawariyara, Panchayat Samiti: Kharin, Dist. Ajmer, Rajasthan (248.00 Sq Yds) Bounded: North: Plot No. 5, South: House Of Narayan, East: Road Of Morawdi, West: House Of Ofantalar Regar
8.	Borrower: AMAR CHAND Co-Borrower: AMAREK LAN: XSEMAIM00515973	17-Nov-2021 Rs. 8,55,783/- (RUPEES SIX LAC FIFTY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY EIGHT ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Plot No. 95, Anand Nagar, Village: Rajhanshpura, G.P. Raopataner, Ajmer, Rajasthan (200.00 Sq Yds) Bounded: North: Plot No. 96, South: Vacant Plot, East: Kharsa No. 882 Land, West: 30 Ft Wide Road
9.	Borrower: INOOR BANO Co-Borrower: SAID KHAN LAN: XSEMPJ00668179	17-Nov-2021 Rs. 6,23,949/- (RUPEES SIX LAC TWENTY THREE THOUSAND NINE HUNDRED FORTY NINE ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Plot No. 17A Issued By Surajpote Gate Gruh Vikas Sahkari Samiti Ltd., Anrutt Vihar Scheme, Jaisinghpura Khor, Jaipur, Rajasthan (54.62 Sq Yds) Bounded: North: Plot No. 17, 8, South: Main Road, East: Plot No. 17, West: Road Wide 20 Feet
10.	Borrower: INOOR AHMED Co-Borrower: NASEEM LAN: XSEMPJ00776050	17-Nov-2021 Rs. 8,47,454/- (RUPEES EIGHT LAC FOURTY SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY FOUR ONLY)	All That Part And Parcel Of The Property Situated At Plot No. 260, Sirahi Grah Nirman Sahkari Samiti Ltd., 7th Shyam Scheme, Bhindro Ka Rasta, Baniar Khora Bisal, Dalaitpura, Jaipur, Rajasthan (100.00 Sq Yds) Bounded: North: Plot No. 259, South: Plot No. 261, East: Plot No. 249, West: Road 30 Ft Wide

Place: (Rajasthan) Date: 10.02.2022 Sd/- Authorised Officer (Mahindra Rural Housing Finance Ltd.)

Delhi Jal Board: Govt. of NCT of Delhi
Office of the Executive Engineer (Civil) - SDW- NW
Opp RBI colony Shalimar Bagh, New Delhi- 110088
Ph No. 011-27491437, e-mail: eecsdwnw@gmail.com

PRESS NIT No. 54 (21-22)
EE(C)/SDW-NW

Item No.	Name of Work	Amount put to Tender (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Tender Fee (in Rs.)	Date of release of tender in e-procurement system	Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1.	Shifting of damaged treated effluent water line emitting from Keshopur STP to feed effluent water in different park of DDA Paschim Vihar from RD 4068 mt (outer ring road) bridge to RD-1906m (KTR) bridge on the left bank of Nalgargh Drain (RE-INVITE)	31,30,556/-	63,000/-	500/-	09.02.2022	23.02.2022 Up to 03.00 PM

Further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 1117(2021-22)

Sd/-
(Anil Kumar Sharma)
Executive Engineer (Civil) SDW-NW
"STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing and Maintain Hand Hygiene"

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (E&M) III
CHANDRAWAL WATER WORKS NO.-1, CIVIL LINES, DELHI-110054
E-mail: eecshwvi@gmail.com; Office No.: 011-23812660

PRESS NIT No. 18 (2021-22) (Re-Invited)

S. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money (Rs.)	Date of release of tender in e-procurement solution	Last date/time receipt of tender through e-procurement solution
1.	Supply, Erection & Construction, Testing, Pre-commissioning, Commissioning, Operation & Maintenance For 5 (Five) Years, And Handing over of 15,000- 18,000 MTPA Poly Aluminium Chloride (PAC) conforming to IS: 1557:2018 with latest amendment (M) Dilution Facility at Delhi Jal Board, Hadeepur Plant Site, Rohini, Delhi (Re-Invited)	Rs. 40,72,000/-	Rs. 80,72,000/-	2022_DJB_216308_1	28-Feb-2022 upto 03:15 PM

Further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 1115(2021-22)

Sd/-
Executive Engineer (E&M)-III
"STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

SARDA PROTEINS LTD
Regd. Office: B-536-537, Matsya Industrial Area, Alwar - 301030 (Rajasthan)
Corporate office: Inside Data Ingenious Global Limited, Station Road, Durgapura, Jaipur-302018 (Rajasthan)
CIN: L15142RJ1991PLC005353 | Phone: +91-7737822222 | E-Mail: sardaproteins@yahoo.com | Website: www.sardaproteins.com

STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2021 (In Lakhs)

Particulars	Three Months ended on		Corresponding three months ended on
	31.12.2021	31.12.2021	
	Un-audited	Un-audited	Un-audited
Total Income from operations	27.93	425.91	47.91
Net profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	5.60	1.62	(2.94)
Net profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	5.60	1.62	(2.94)
Net profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	5.60	1.62	(2.94)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) and other comprehensive income for the period) after tax	5.60	1.62	(2.94)
Paid Up Equity Share Capital, Equity Shares of Face Value Rs. 10 each	172.59	172.59	172.59
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
Earnings per Equity Share (of Face Value Rs. 10 each)			
(a) Basic	0.32	0.09	(0.17)
(b) Diluted	0.32	0.09	(0.17)

Note: a) The above is an extract of the detailed Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2021 is available on Company's website (www.sardaproteins.com) and on Stock Exchange's website (www.bseindia.com). b) The above results were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th February, 2022. The Statutory auditors have conducted a limited review of the above Un-audited financial results and the same along with limited review report of the auditors has been filed with Stock Exchange. c) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

For Sarda Proteins Ltd.
Sd/- Amit Kumar Modi
Company Secretary & Compliance officer
M.No.: 29371

Date: 10th February, 2022
Place: Jaipur

Aavas Financiers Limited
(Formerly known as Au HOUSING FINANCE LIMITED) (CIN:L65922RJ2011PLC034297)
Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020

POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "AU HOUSING FINANCE LIMITED") under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on the dates mentioned as below.

The borrower and guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property will be subject to the change of the AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "AU HOUSING FINANCE LIMITED") for an amount mentioned as below and further interest thereon.

Name of the Borrower	Date & Amount of Demand Notice	Description of Property	Date & Type of Possession
BABLI KUNWAR, Mr. VIKRAM SINGH Guarantor : Mr. VIRENDRA SINGH PANWAR (A/c No.) LNCHI02219-200142547	27 Nov 21 Rs. 2635374/- Dues as on 25 Nov 21	RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT HOUSE NO. 2-B9, AT SEGWA ROAD, HOUSING BORAD, CHITTORGARH, RAJASTHAN ADMEASURING 162 Sq. Mtrs	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
SANGEETA RAWAT, Mr. MANISH RAWAT (A/c No.) LNJAR02418-190090544	27 Nov 21 Rs. 2537202/- Dues as on 25 Nov 21	FLAT NO. 5-2, SECOND FLOOR, BUILT ON PLOT NO. 22, VIKAS NAGAR-C, JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 1163 Sq. Ft.	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
PAPPU BHAI PUROHIT, Mrs. PANI BAI PUROHIT, Mr. MAHESHBHAI PAPPUBHAI PUROHIT, Mr. SURESH PUROHIT (A/c No.) LNUDA02118-190099354	27 Nov 21 Rs. 2333068/- Dues as on 25 Nov 21	PROPERTY SITUATED AT GRAM PANCHAYAT - MANGTHALA, PANCHAYAT SAMITI - MAVLI, ARAJI NO. 1038, DIST. UDAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 2700 Sq. Ft.	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
BABU LAL, Mrs. SITA DEVI, Mr. HEERA LAL, Mrs. KAMALA DEVI, Mr. LALU RAM, Mrs. GEETA DEVI, Mr. KAILASH CHANDRA, Mrs. SITA DEVI, Mr. PHOOLA RAM BAIJYA, Mrs. GANGA DEVI, Mr. CHOTHI MAL BAIJYA, Mrs. MOHANI DEVI, Mr. BANWARI LAL BAIJYA, Mrs. SHRAWANI DEVI, Mr. SUWA LAL BAIJYA, Mrs. KAMALI DEVI, Mrs. TIJA DEVI, Mr. MAHAVEER PRASAD, Mr. RAM CHANDER BAIJYA, Mr. KEDAR MAL BAIJYA Guarantor : Mr. DHARAMPALL (A/c No.) LNRIN02917-180067261	27 Nov 21 Rs. 2717163/- Dues as on 25 Nov 21	(1) PATTI NO 207 RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT WARD NO 19, BAIYA KI DHANI REENGUS, TEHSIL SHRIMADHOPUR, SIKAR, RAJASTHAN ADMEASURING 270.77 Sq. Yard (2) PATTI NO 208 RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT WARD NO 19, BAIYA KI DHANI REENGUS, TEHSIL SHRIMADHOPUR, SIKAR, RAJASTHAN ADMEASURING 279.38 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
VIJAY KUMAR, Mrs. RINKU DEVI Guarantor : Mr. ROHITASH KUMAWAT (A/c No.) LNJUN02416-170040146	27 Nov 21 Rs. 2241031/- Dues as on 25 Nov 21	RESIDENTIAL PROPERTY PLOT (PART OF PATTI NO. 33) SITUATED AT WARD NO. 22, MODI ROAD, NEAR MOHALLA HARIJAN, JUHNHUNUN, RAJASTHAN ADMEASURING 88.88 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
BABU LAL TODAWAT, Mrs. MANGI DEVI (A/c No.) LNPPR02920-210145168	27 Nov 21 Rs. 2220762/- Dues as on 25 Nov 21	PLOT NO. 19, SITUATED AT SCHEME VRANDAVAR VIHAR, VILLAGE BHANKROTA, TEHSIL SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 183.33 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
SUNITA S DEVI, Mr. SATYA NARAYAN LAKHERA (A/c No.) LNJAR06320-210154695 & LNJAR07820-210157112	27 Nov 21 Rs. 2035152/- & Rs. 279147/- Dues as on 25 Nov 21	PLOT NO. 13, SITAUED SCHEME AT TIRUPATI NAGAR EXT-A, KARKUNTA KI DHANI, BENAR RAILWAY STATION ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 100 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
DINESH SHARMA, Mrs. VIMLA DEVI, Mr. MUKESH KUMAR SHARMA, Mr. ROOP NARAYAN SHARMA, Mrs. URMILA DEVI, Mr. KAMAL KANT SHARMA (A/c No.) LNJO803718-190096428 & LNJO804319-200138707	27 Nov 21 Rs. 2130959/- & Rs. 416475/- Dues as on 27 Nov 21	SITUATED AT VILLAGE HARSOLI, TEHSIL, KISHANGARH RENWAL, DISTT. JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 576.66 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
JITENDRA SINGH TANWAR, Mrs. MEENU KANWAR, Mrs. ASRAFI KANWAR (A/c No.) LNSIK01818-190100274 Guarantor : Mr. JAGDISH PRASAD JANGIR (A/c No.) LNSIK02918-190074841	27 Nov 21 Rs. 900101/- & Rs. 1904881/- Dues as on 27 Nov 21	(1) RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT PLOT NO. 18, PART OF KHARSA NO. 759/469, MAHOTMA JYOTIBA PHOOLE NAGAR AWASIYA YOJANA, BLOCK NO. A, SOUTH SIDE OF JYOTIBA PHOOLE CIRCLE, JAIPUR-JUHNHUNUN BYE PASS, SAMARTHAPURA, SIKAR, RAJASTHAN ADMEASURING 177.77 Sq. Yard (2) PROPERTY SITUATED AT PATTI NO. 184, PLOT NO. 26, KAILASH NAGAR, PIPRALI ROAD, SIKAR, TEHSIL & DIST. SIKAR, RAJASTHAN ADMEASURING 438.62 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
MANJU KANWAR, Mr. RAM SINGH NARUKA Guarantor : Mr. Pawan Kumar Sharma (A/c No.) LNJUPAT015-16002061	27 Nov 21 Rs. 1902685/- Dues as on 25 Nov 21	FLAT NO.-4, 1ST FLOOR, VAKRANGI APARTMENT-2, PLOT NO E-9, SCHEME MANGLAM CITY, VILL HATOJ, KALWAR ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 880 Sq. Ft.	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
KAPIL GARG, Mrs. VARSHA GARG (A/c No.) LNBH02918-190076582	27 Nov 21 Rs. 1695611/- Dues as on 25 Nov 21	PLOT NO 26, ARAJI NO. 575, VILLAGE- ATUN, ADARSH NAGAR, BHUWARA, RAJASTHAN ADMEASURING 88.88 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
KAILASH CHAND SHARMA, Mrs. CHOOTI DSHARMA (A/c No.) LNDKB04319-200132002 Guarantor : Mr. JAGJEET SINGH (A/c No.) LNDKB02917-180069648	27 Nov 21 Rs. 422688/- & Rs. 2324743.41/- Dues as on 27 Nov 21	PLOT NO 29-A, APANA AGAN, SIKAR ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 211 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
VISHNU SALVI, Mrs. DEVABALA SHARMA (A/c No.) LNCHI00316-170041026	27 Nov 21 Rs. 1787339/- Dues as on 25 Nov 21	PROPERTY SITUATED AT EAST PART OF PATTI NO. 8, VILL SEHWANA, DISTT. CHITTORGARH, RAJASTHAN ADMEASURING 1530 Sq. Ft.	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
RAM CHAND KUMAR, Mr. HITESH ROHIDA, Mr. HONEY ROHIRA, Mrs. MEENA ROHIDA (A/c No.) LNKOT03719-200108642 Guarantor : Mr. LALCHAND ISHRANI (A/c No.) LNKOT01819-200109960	27 Nov 21 Rs. 831840/- & Rs. 1809264/- Dues as on 27 Nov 21	(1) COMMERCIAL SHOP NO 154, SITUATED AT RAJEEV PLAZA, VIGYAN NAGAR, KOTA, RAJASTHAN ADMEASURING 64 Sq. Ft. (2) COMMERCIAL SHOP NO 155, SITUATED AT RAJEEV PLAZA, VIGYAN NAGAR, KOTA, RAJASTHAN ADMEASURING 64 Sq. Ft. (3) COMMERCIAL SHOP NO 156, SITUATED AT RAJEEV PLAZA, VIGYAN NAGAR, KOTA, RAJASTHAN ADMEASURING 64 Sq. Ft.	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
MUKESH KUMAR KUMAWAT, Mr. BANWARI LAL, Mrs. GITA DEVI Guarantor : Mr. RAMESH KUMAWAT (A/c No.) LNSIK00616-170038468	27 Nov 21 Rs. 17799034/- Dues as on 25 Nov 21	RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT PATTI NO 281, KHARSA NO 2233, WARD NO 5, DHANI SADHYWALI, GARM SHRIMADHOPUR, SIKAR, RAJASTHAN ADMEASURING 354.66 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
GOKUL PRAJAPAT, Mr. MAHESH KUMAR PRAJAPAT, Mrs. GINDO DEVI, Mr. SITARAM SITARAM (A/c No.) LNJAR00318-190092304	27 Nov 21 Rs. 1701323/- Dues as on 25 Nov 21	NORTH PART OF PLOT NO.- 12, SCHEME SAURABH VIHAR, VILLAGE BHANKROTA, TEHSIL JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 202.22 Sq. Yard	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
MALA SINGH, Mr. MANOJ KUMAR (A/c No.) LNSJT00015-160019335	27 Nov 21 Rs. 1827595/- Dues as on 25 Nov 21	FLAT NO. T-3, THIRD FLOOR BUILT ON PLOT NO. 188, SITA RAM VIHAR, GANPATPUR, SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 1124 Sq. Ft.	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
HANUMAN RAM, Mr. SAHI RAM, Mrs. PARAMA, Mr. PARMESHWAR (A/c No.) LNKAG02918-190106269	27 Nov 21 Rs. 1689044/- Dues as on 27 Nov 21	RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT PATTI NO. 35, MISAL NO. 4/78, VILLAGE INANA, TH. MUNDWIA, DIST. NAGAUAR, RAJASTHAN ADMEASURING 22038 Sq. Ft.	Symbolic Possession Taken on 7 Feb 22
VIRENDRA KUMAR, Mrs. MINAKSHI ARORA Guarantor : Mr. PURAN ARORA (A/c No.) LNKTP00615-160016299 &			

